

संस्थान में हिन्दी सप्ताह समापन समारोह सम्पन्न

केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में आयोजित हिन्दी सप्ताह का समापन



समारोह 21 सितम्बर को सम्पन्न हुआ । समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थान निदेशक डॉ. ओ.पी. यादव ने कहा कि हिन्दी के सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, सरल भाषा में वार्ता करें लोग सरलता को पहले स्वीकारते हैं । जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो जरा विचार करें किसी बात को समझाने के लिए

मानव ने कितने कठिन प्रयास किये होंगे । मानव ने भाषा और कृषि का विकास किया तथा निरन्तर प्रयास कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि वर्तमान में दुनिया में संवाद आसानी हो रहा है, खाने को अन्न, पीने को पानी, रहने को घर मिल रहा है । उन्होंने कहा राजभाषा से प्रेम करें एवं अधिकतम कार्य हिन्दी में करें। हिन्दी प्रभारी डॉ. पी.सी. महाराणा ने हिन्दी सप्ताह कार्य

के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र लेखन में भीमराज सोलंकी, अर्जुन सिंह, जोधाराम, निबन्ध लेखन में सूरज प्रकाश, डॉ. महेश कुमार, राजेन्द्र पटेल, हिन्दी टंकण में नटवर लाल पुरोहित, रमेश चन्द्र, सुशील शाह, सामान्य हिन्दी में हेमराम, खुशवन्त चैधरी, कुसुम लता क्रमशः



प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर विजेता रहे । शोध पत्र प्रदर्शन में डॉ. सविता सिंघल, डॉ. पूनम कालश, मनीष चैधरी, डॉ. बी.एस. राठौड़, प्रथम एवं डॉ. सुरेन्द्र पूनिया, डॉ. ए.के. सिंह, अमित कुमार सिंह द्वितीय एवं डॉ. महेश कुमार, डॉ. ऋतु मावर, तनु माथुर तृतीय स्थान पर विजेता रहे । हिन्दी में प्रकाशित आलेख प्रतियोगिता में डॉ. राजेश कुमार गोयल एवं डॉ. महेश कुमार गौड़ प्रथम एवं डॉ. विजय अविनाशलिंगम एन.ए., डॉ. छीतर मल ओला, डॉ. आर.के.गोयल, डॉ. प्रतिभा तिवारी द्वितीय स्थान पर विजेता रहे । इस अवसर पर मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी सुनीता आर्य, विभागाध्यक्ष डॉ. दिलीप जैन, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. विपिन चौधरी प्रशासकीय अधिकारी रमेश कुमार एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहे । संस्थान के कार्यवाहक हिन्दी अधिकारी बहादुर सिंह सांखला ने स्वागत किया एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेश कुमार गौड़ ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।